

लुमिवुडीन (LAMIVUDINE)

- इसे हैप्टोविर®, एपो-लुमिवुडीन® के नाम से भी जाना जाता है
- यह दवा खाने वाली गोली या पीने वाली दवा के रूप में उपलब्ध है।

यह दवा कैसी दिखती है?(What does the medication look like?)

इस दवा के लिए कई ब्रांड हैं और हो सकता है कि आपको नीचे दिखाए गए ब्रांड जैसा अपना ब्रांड न मिले। यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो कृपया अपने ट्रांसप्लांट फार्मासिस्ट से पता लगाएं।



यह दवा किस बीमारी के लिए है? (What is this medication for?)

लुमिवुडीन खून में मौजूद हैप्टाइटिस B वायरस की मात्रा कम करती है और लिवर की कार्यक्षमता में सुधार लाने में मदद कर सकती है और आगे चलकर लिवर को होने वाला नुकसान घटाती है।

मुझे यह दवा कैसे लेनी चाहिए? (How should I take this medication?)

यह दवा दिन में एक बार लें (उदाहरण के लिए सुबह 9 बजे)	आपकी दवा का समय:
---	------------------

- दवा भोजन के साथ या बिना भोजन के ली जा सकती है।
- यह दवा दिन में किसी भी समय ली जा सकती है और इसे आप अपनी किसी भी अन्य दवाओं के समय पर ले सकते हैं। अपने शरीर में स्थिर मात्रा (दवा का स्तर) बनाए रखने के लिए इसे रोज़ाना एक ही समय पर लें।

छूटी हुई खुराक या उल्टी द्वारा निकली खुराक (Missed Dose or Vomited Dose):

यदि आपसे खुराक छूट गई है, जैसे ही आपको याद आए, अपनी दवा लें और फिर अपनी अगली खुराक नियमित तौर पर निर्धारित समय पर लें। यदि आपकी अगली खुराक लेने में बहुत अधिक समय नहीं बचा है, तो अपनी छूटी हुई खुराक न लें और अपने नियमित समय पर खुराक लेना जारी रखें। दोगुनी या अतिरिक्त खुराक न लें।

यदि खुराक लेने के 30 मिनट के भीतर आपको उल्टी हो जाती है या यदि आप देखते हैं कि कोई दवा बाहर निकली है, तो खुराक दोबारा लें। नहीं तो, बस अपने अगले निर्धारित समय पर खुराक लें।

इस दवा के कुछ संभावित दुष्प्रभाव क्या हैं? (What are some possible side effects of this medication?)

दुष्प्रभाव	प्रबंधन
दस्त, मतली, उल्टी, सिरदर्द, थकान	भोजन या दूध के साथ लें। लेकिन यदि लक्षण बने रहते हैं, तो अपने डॉक्टर या ट्रांसप्लांट टीम को बताएं।
हाथों, पैरों में जलन/झनझनाहट	यदि ठीक नहीं होती या बिगड़ जाती है, तो अपने डॉक्टर को बताएं।
नाक, कान या गले का संक्रमण	बुखार, कान, जबड़ा, भोजन चबाते समय दर्द, नाक से अस्पष्ट रिसाव। यदि बना रहता है, तो अपने डॉक्टर को बताएं।
लिवर की आसामान्य कार्यक्षमता	यदि आप यह महसूस कर रहे हैं, तो अपने डॉक्टर को बताएं: <ul style="list-style-type: none"> • मतली या उल्टी के साथ पेट में तेज़ दर्द • त्वचा या आंखों में पीलापन, पेट या उदर-दर्द, गहरे भूरे रंग का पेशाब या पीली मल। • आपके शरीर की बनावट में अजीब सा बदलाव (कमर के आसपास मोटापा और/या मुंह पर भारीपन) • हाथों या पैरों में दर्द, झनझनाहट या सुन्न होना